

कार्रवाई / झोपड़ी में चल रही नकली विदेशी शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़



95 पेटी विभिन्न ब्रांडों की नकली शराब और 22 सौ लीटर कच्चा स्पिरिट बरामद, दो वाहन जब्त, चार गिरफ्तार, बिहार में खपाने की थी योजना बरामद नकली शराब के साथ गिरफ्तार अपराधी और मामले का खुलासा करती डीएसपी।

Hindi News | Local | Jharkhand | Dhanbad

Mini factory bundle of fake foreign liquor running in the cottage

Mar 19, 2019, 11:58 AM IST

धनबाद. उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र तिलैया पारघो गांव में सोमवार को छापेमारी कर पुलिस ने दो झोपड़ी में चल रहे मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 22 सौ लीटर कच्चा स्पिरिट और केमिकल के अलावे विभिन्न ब्रांडों का रैपर, खाली बोतल बरामद किया है। बरवाअड्डा के जोड़ापीपल में पुलिस ने दो वाहन भी जब्त किया है। जिसमें विभिन्न ब्रांडों का 95 पेटी बरामद हुआ है। जिसमें छोटी और बड़ी शीशियों में नकली शराब भरी हुई है।

फैक्ट्री का संचालन झरिया का शिवजी सिंह कर रहा था

डीएसपी सरिता मुर्मू ने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने सोमवार की सुबह परघो बस्ती में छापेमारी की। दो झोपड़ी में नकली शराब बनाने का काम चल रहा था। पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री से भगतडीह निवासी संजय ठाकुर और बकरीहाट निवासी सुनील रवानी को गिरफ्तार किया है। वहीं, वाहन चालक झरिया कोइरीबांध का सिंकदर साव और भगतडीह का शिशुपाल वर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने बताया कि अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन झरिया का शिवजी सिंह कर रहा था। शिवजी सिंह व मनोज मंडल, मनियाडीह का कैलाश साव, चंद्रदेव मंडल व बरवाअड्डा का देवास टुडू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने बरवाअड्डा के जोड़ापीपल के पास सोमवार की सुबह दो वाहनों में लदा नकली शराब पकड़ था। दोनों वाहनों के चालकों से पूछताछ के दौरान अवैध फैक्ट्री का पता चला। पुलिस की विशेष टीम ने बरवाअड्डा तिलैया के परघो में छापेमारी की। वहां पुलिस को नकली शराब की फैक्ट्री मिली। नकली शराब बनाने में झरिया का बड़ा नेटवर्क शामिल है। शिवजी सिंह इसका मास्टर माइंड है। पूर्व में इसके खिलाफ नकली शराब बरामदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज है। जेल भी जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद उसने नकली शराब का धंधा शुरू कर दिया।

बताया जा रहा है कि होली के मद्देनजर अवैध शराब का निर्माण काफी तेजी से किया जा रहा था। निर्मित शराब को वैन और ऑटो से जीटी रोड के किनारे ढाबों और बिहार भेजने की योजना थी। पुलिस का कहना है कि नकली शराब का बड़ा नेटवर्क है, जिसे खंगाल जा रहा है।